

二十一度母禮讚儀軌

香港
大圓滿心髓研究中心






頂禮 聖求度母

圖輪字咒母度綠
書親師上圖克圖呼那諾康西

綠光由前向左旋轉



咒字由前向右環列

度母祈請文 阿底峽尊者 撰

ஓହୀ ଜିଙ୍ଗ ଦେଖାପ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିରୀମାପାକୁଣାପତ୍ରିବୀ

OM JIG-PA GYË KYOB MA LA CHAK TSAL-LO/
OM, I prostrate to her who protects from the Eight Fears.

嗡 頂禮解脫八難護佑母

ଏଶ୍ଵରୀଦ୍ୱାପାରମାପାକୁଣାପତ୍ରିବୀ

TA-SHEE PAL BAR MA LA CHAK TSAL-LO/
I prostrate to her whose glorious good fortune blazes.

頂禮吉祥圓滿燦耀母

ଏଶ୍ଵରୀଦ୍ୱାପାରମାପାକୁଣାପତ୍ରିବୀ

NGAN-SONG GO GAG MA LA CHAK TSAL-LO/
I prostrate to her who blockades the door to the over realms.

頂禮三惡道門斷除母

ଏଶ୍ଵରୀଦ୍ୱାପାରମାପାକୁଣାପତ୍ରିବୀ

THO-REE LAM DREN MA LA CHAK TSAL-LO/
I prostrate to her who leads on the path to the higher realms.

頂禮善趣道路導引母

ଏଶ୍ଵରୀଦ୍ୱାପାରମାପାକୁଣାପତ୍ରିବୀ

TAK-TU KHYË-KYEE TONG PAR DZE/
Please help me at all times.

以尊恆常饒益行

ଏଶ୍ଵରୀଦ୍ୱାପାରମାପାକୁଣାପତ୍ରିବୀ

DA-DUNG THUK-JË KYAB-TU SOL/
Furthermore, please protect me by your compassion.

復次大悲祈庇佑

三遍

敬安仁波切 中譯

ஓ| ଶ୍ରୀପାମ'ତେ-ଶତିଷ'ପଞ୍ଚଦ'ପ'ନ୍ଦ-ବନ୍ଦ'ଶର୍ଷପ'ପତତା
ପତୁଷାର୍ଥ||

二十一度母讚和祈願文

ଶ୍ରୀପାମ'ତେ-ଶତିଷ' ପତୁଷାର୍ଥ
前行板依發心

ବ'ମ'। ଦ୍ଵାରା ପକ୍ଷଣ' ଶ୍ରୀପାମ' ତେ-ଶତିଷ' ପତୁଷା
頂禮三寶總集聖度母
ପଦାଶଶାର୍ଥ' ଶ୍ରୀପାମ' ତେ-ଶତିଷ'
我與眾生恆皈依
ତେ-ଶତିଷ' ପଦାଶଶାର୍ଥ' ଶ୍ରୀପାମ' ତେ-ଶତିଷ'
願菩提心發生起
ଶଶାର୍ଥ' ପଦାଶଶାର୍ଥ' ଶ୍ରୀପାମ' ତେ-ଶତିଷ'
入此深道勤修持
ଶଶାର୍ଥ' ପଦାଶଶାର୍ଥ' ଶ୍ରୀପାମ' ତେ-ଶତିଷ'
三遍

ଯଦ'ପାମ' ପତୁଷାର୍ଥ'। 七支淨供
ହେ-ପତୁଷା' ଦ୍ୱାରା ପାମ' ତେ-ଶତିଷ'
至尊聖母救度母
ପତୁଷା' ପତୁଷା' ଶ୍ରୀପାମ' ତେ-ଶତିଷ'
住於十方三世境
ଶ୍ରୀପାମ' ତେ-ଶତିଷ' ପତୁଷା' ଶ୍ରୀପାମ'
所有諸佛菩薩前

ଶ୍ରୀପାମ' ତେ-ଶତିଷ' ପତୁଷା' ଶ୍ରୀପାମ'
悉皆誠信作頂禮
ପତୁଷା' ପତୁଷା' ଶ୍ରୀପାମ' ତେ-ଶତିଷ'
花、香、燈燭及塗香
ତେ-ଶତିଷ' ପତୁଷା' ଶ୍ରୀପାମ'
食物伎樂等妙物
ତେ-ଶତିଷ' ପତୁଷା' ଶ୍ରୀପାମ'
實設意變皆供養
ତେ-ଶତିଷ' ପତୁଷା' ଶ୍ରୀପାମ'
願聖母眾皆納受
ତେ-ଶତିଷ' ପତୁଷା' ଶ୍ରୀପାମ'
無始以來直至今
ତେ-ଶତିଷ' ପତୁଷା' ଶ୍ରୀପାମ'
所作十惡五無間
ତେ-ଶତିଷ' ପତୁଷା' ଶ୍ରୀପାମ'
心為煩惱力所役
ତେ-ଶତିଷ' ପତୁଷା' ଶ୍ରୀପାମ'
所造諸罪皆懺悔
ତେ-ଶତିଷ' ପତୁଷା' ଶ୍ରୀପାମ'
聲聞緣覺諸菩薩

शर्वानुदृत्यर्थमनुप्रवा
各類凡夫諸有情
तुष्मानुमनोपतिप्रवाप्ति
三世所積諸善德
पर्षद्वमाप्तिप्रदाप्ति
我皆隨喜盡無餘
शेषात्तद्वमाप्तिप्रदाप्ति
祈依有情之願求
क्षेप्तुप्रवाहिभूप्रवा
心智差別等情形
केकुद्धुमाप्तिप्रवा
而將大小共通乘
केशग्रीवप्रवाप्तिप्रवा
祈請轉動妙法輪
प्रवाप्तिप्रवाप्तिप्रवा
直至輪迴未空盡
भूद्धमीद्दद्धुमाप्तिप्रवा
請常住世不涅槃
शुष्माप्रवाक्षेप्तुप्रवा
沉溺苦海諸眾生

शेषात्तद्वमाप्तिप्रवा
悉願度母祈垂顧
प्रदाप्तिप्रवाप्तिप्रवा
我今所集諸功德
प्रमात्तद्वमाप्तिप्रवा
皆成無上菩提因
हेद्धमीशेषात्तद्धुप्रवा
願我不久即成為
हेद्धप्रदेद्धप्रवा
眾生之殊勝導師
त्तुष्माप्रदाप्तिप्रवा
烏巴拉比丘尼著

त्रिष्टुप्तिप्रवा
頂禮 廿一度母
ज्ञेहेष्टुप्तिप्रवा
嗡 m 聖救度母我頂禮
त्रिष्टुप्तिप्रवा
敬禮大咧速疾勇
त्रिष्टुप्तिप्रवा
杜達咧者除怖畏
त्रिष्टुप्तिप्रवा
杜咧能授諸勝義

शुद्धैषिषोत्तद्याद्यन् ॥
具梭哈字我讚禮
शुभरक्षयस्त्वम्भूमादपर्मा
(1)敬禮救度速勇母
शुभविश्वद्विष्वाशद्यन् ॥
目如剎那電光照
द्विष्वाहेत्वशुभम्भूमाद्विष्वाश
三世界尊蓮華面
षेष्वाप्तुप्यवश्विद्युमा
從妙華中現端嚴
शुभरक्षयस्त्वगद्विष्वाप्तुप्तु
(2)敬禮百秋朗月母
पद्मप्रकृद्विष्वाद्विष्वाप्तुप्तु
普遍圓滿無垢面
शुभम्भूद्विष्वाक्षण्डाप्तुप्तु
如千星宿俱時聚
स्पद्विष्वाद्विष्वाप्तुप्तु
殊勝威光超於彼
शुभरक्षयस्त्वम्भूक्षण्डाप्तुप्तु
(3)敬禮紫磨金色母

पद्मशुभविद्विष्वाप्तुप्तु
妙蓮華手勝莊嚴
शुभविद्विष्वाप्तुप्तु
施精勤行柔善靜
पद्मविद्विष्वाप्तुप्तु
忍辱禪定性無境
शुभरक्षयद्विष्वाप्तुप्तु
(4)敬禮如來頂髻母
पद्मशुभविद्विष्वाप्तुप्तु
最勝能滿無邊行
पद्मशुभविद्विष्वाप्तुप्तु
得到彼岸盡無餘
क्षण्डाप्तुप्तु
勝勢佛子極所愛
शुभरक्षयद्विष्वाप्तुप्तु
(5)敬禮達囉吽字母
द्विष्वाप्तुप्तु
聲愛方所滿虛空
द्विष्वाप्तुप्तु
運足遍履七世界

悉能鉤召盡無餘

普¹能²鉤³召⁴盡⁵無⁶餘

(6)敬禮釋梵火天母

(指帝釋火神，梵天。)

風神自在眾俱集

風¹神²自³在⁴眾⁵俱⁶集

部多起屍尋香等

部¹多²起³屍⁴尋⁵香⁶等

諸藥叉眾作稱讚

諸¹藥²叉³眾⁴作⁵稱⁶讚

(7)敬禮達囉呸度母

於他加行極摧壞

於¹他²加³行⁴極⁵摧⁶壞

右屈左伸作足踏

右¹屈²左³伸⁴作⁵足⁶踏

頂髻熾盛極明耀

頂¹髻²熾³盛⁴極⁵明⁶耀

(8)敬禮杜咧大緊母

勇猛能摧怨魔類

勇¹猛²能³摧⁴怨⁵魔⁶類

於蓮華面作顰眉

於¹蓮²華³面⁴作⁵顰⁶眉

摧壞一切冤家眾

摧¹壞²一³切⁴冤⁵家⁶眾

三寶嚴印母

三¹寶²嚴³印⁴母

手指當心威嚴相

指¹當²心³威⁴嚴⁵相

嚴飾方輪盡無餘

嚴¹飾²方³輪⁴盡⁵無⁶餘

自身熾盛光聚禮

自¹身²熾³盛⁴光⁵聚⁶禮

(10)敬禮威德歡悅母

寶冠珠鬟眾光飾

寶¹冠²珠³鬟⁴眾⁵光⁶飾

最極喜笑杜達囉

最¹極²喜³笑⁴杜⁵達⁶囉

鎮世間魔作攝伏
羣魔降伏大威德天子
(11)敬禮守護眾地母
眾地母天子降伏天子
亦能勾召諸神眾
搖顰眉面吽字聲
一切衰敗令脫度
羣魔降伏天子降伏天子
(12)敬禮頂冠月相母
頂冠月相天子降伏天子
冠中現勝妙嚴光
勝妙嚴光天子降伏天子
阿彌陀佛髻中現
常放眾妙寶光明
羣魔降伏天子降伏天子
(13)敬禮如盡劫火母

བྱତ୍-ସର୍ଵ-କ୍ଷେତ୍ର-ଦୁଷ୍ଟ-ଶବ୍ଦ-ମା
安住熾盛頂髻中
ସଯଣ-ପର୍ବତ-ଶର୍ଵ-ପଞ୍ଚମ-ଗୁରୁ-ତଥ-ପଞ୍ଜି-ନଗବୀ
普遍喜悅半趺坐
ନ୍ତ୍ର-ପି-ଦୁଷ୍ଟ-କ୍ଷେତ୍ର-ପର୍ବତ-ମା
能摧滅壞惡冤輪
ଶୁଣ-ବର୍ଣ୍ଣ-ପାତା-ଶାଖା-ବିଦ୍ୟେ-ଦୂଷା-ପଦ୍ମା-ଶୀ
(14)敬禮手按大地母
ମୈଯ-ଶ୍ରୀ-ଶାପଙ୍କୁତ-କ୍ଷେତ୍ର-ଶ୍ରୀ-ଶାପଙ୍କୁତ-ମା
以足踐踏作鎮壓
ପ୍ରତି-ତତ୍ତ୍ଵ-ମହା-ଦ୍ୟୁ-ମୋ-ଦୁଃ୍ଖଶା
現顰眉面作吽聲
ଦ୍ୟୁ-ମ-ପଦ୍ମ-ଦ୍ୟୁ-ମଧ୍ୟ-କ୍ଷେତ୍ର-ଦ୍ୟେ-ମା
能破七險鎮降服
(指魔所居七重地府)
ଶୁଣ-ବର୍ଣ୍ଣ-ପଦ୍ମ-ମ-ଦ୍ୟୋ-ମ-ବିମା
(15)敬禮安穩柔善母
ଶୁଣ-ବର୍ଣ୍ଣ-ବିଶ୍ଵା-ଶ୍ରୀ-ପଦ୍ମ-ମା
涅槃寂滅最樂境
ଶୁଣ-ବର୍ଣ୍ଣ-ଦ୍ୟୁ-ମ-ଦ୍ୟୁ-ମ-ଶବ୍ଦ-ମା
梭哈命種以相應

३॒० शं क्लेन् द्युद्देष्मशं त्रिं मा
善能消滅大災禍
३२१ भुषा द्वक्ष्यात् वशवश्च रस्य नगर एवि
(16)敬禮普遍極喜母
३२२ न्याप्ति युषा वै रस्य न्युषा वै
諸怨支體令脫離
३२३ चिं शो यस्तु वर्दी द्वषा वै वर्गद्वद्वदि
十字咒句妙嚴布
३२४ शं पाद्युषा वै यस्तु वै त्रिं मा
明咒吽聲常朗耀
३२५ भुषा द्वक्ष्यात् द्वदी द्वषा वै यस्य वशा
(17)敬禮杜列巴帝母
३२६ शुषी क्लमा वर्दी शो वै त्रिं मा
足蹕相勢吽字種
३२७ द्वे यम्बु राद्य द्वैषाश्च त्रिं
彌魯曼陀結辣薩
(瞻洲三大山之名)
३२८ द्वैषाश्च त्रिं शुषी क्लमा वै त्रिं मा
於此三處能搖動
३२९ भुषा द्वक्ष्यात् द्वदी द्वक्ष्यात् क्लमा वै
(18)敬禮薩拉天海母
(指月中之兔，月之別名)

३३० द्वैषाश्च त्रिं शुषा वै यस्य वशा
手中執住神獸像(鹿獸)
३३१ द्वैषाश्च त्रिं शुषा वै यस्य वशा
誦二大囉作呸聲
३३२ द्वैषाश्च त्रिं शुषा वै यस्य वशा
能滅諸毒盡無餘
३३३ द्वैषाश्च त्रिं शुषा वै यस्य वशा
(19)敬禮諸天集會母
३३४ द्वैषाश्च त्रिं शुषा वै यस्य वशा
天緊那羅所依愛
(天人非人龍所化身)
३३५ द्वैषाश्च त्रिं शुषा वै यस्य वशा
威德歡悅若堅鎧
३३६ द्वैषाश्च त्रिं शुषा वै यस्य वशा
滅除鬥爭及惡夢
३३७ द्वैषाश्च त्रिं शुषा वै यस्य वशा
(20)敬禮日月廣圓母
३३८ द्वैषाश्च त्रिं शुषा वै यस्य वशा
目睹猶勝普光照
३३९ द्वैषाश्च त्रिं शुषा वै
誦二哈囉杜達囉

শৈবানুভূতি দেবীমূর্তি পূজা
善除惡毒瘧熱病
শুণা দ্রক্ষ্যা দেবী শুণামূর্তি পূজা
(21) 敬禮具三真實母
শৈবানুভূতি দেবী শুণামূর্তি
善靜威力皆具足
শুণামূর্তি দেবী শুণামূর্তি
邪魔起屍藥叉眾
দ্রক্ষ্যা দেবী শুণামূর্তি
都列最極除災禍
কৃষ্ণ দেবী শুণামূর্তি
若有智者勤精進
শুণা দ্রক্ষ্যা দেবী শুণামূর্তি
至心誦此二十一

(如上盡力唸誦後，繼續唸誦下功德文一遍)

阿彌陀佛心 唸誦功德

阿彌陀佛心 唸誦功德
救度尊處誠信禮
是故讚嘆根本咒

শৈবানুভূতি দেবী শুণামূর্তি
每晨旦起夕時禮
শুণামূর্তি দেবী শুণামূর্তি
憶念施諸勝無畏
শুণামূর্তি দেবী শুণামূর্তি
一切罪業盡消除
শুণামূর্তি দেবী শুণামূর্তি
悉能超越諸惡趣
শুণামূর্তি দেবী শুণামূর্তি
此等速能得聰慧
শুণামূর্তি দেবী শুণামূর্তি
七俱胝佛所灌頂
শুণামূর্তি দেবী শুণামূর্তি
現世富貴壽延安
শুণামূর্তি দেবী শুণামূর্তি
當來趣向諸佛位
শুণামূর্তি দেবী শুণামূর্তি
有時誤服諸毒物
শুণামূর্তি দেবী শুণামূর্তি
或自然生或合成

唵·阿·南·多·威·汝·度·母·南·多·南·
憶念聖尊真實力
南·多·南·多·南·多·南·多·南·
諸惡毒藥盡消滅
南·多·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
或見他人遭鬼魅
南·多·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
或發熱病受諸苦
南·多·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
若轉此讚二三七
南·多·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
彼諸苦惱皆蠲除
南·多·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
欲乞男女得男女
南·多·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
求財富位獲富饒
南·多·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
善能圓滿隨意願
南·多·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
一切障礙不能侵

南·多·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
經華讚
南·多·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
至尊聖救度母您了知
南·多·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
祈請救度怖畏和苦痛
南·多·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
叉通敦久林巴的法子--貝麻噶,記旺手多傑
匝堵,繁淨相所傳
唵·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
唵■達列 杜達列 杜列 梭哈
(此讚誦文可單獨隨時盡力唸誦,而後持咒)
南·多·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
祈願文
南·多·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
聖尊薄伽梵母大悲具
南·多·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
我與一切無邊有情眾
南·多·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
二障清淨速圓二資糧
南·多·南·多·南·多·南·多·南·多·南·
證得圓滿佛位祈加持

नृ० वैष्णवीकैः सप्ता गुरुं यदा ।
於未得之來世輪迴中
भूद्वैष्णवैष्णवकैः वैष्णवा ।
能得天人妙樂諸勝受
समाप्तद्वैष्णवैष्णवैष्णवा ।
以方便成就一切種智
वैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवा ।
斬斷魔障瘧疫病痛苦
द्वैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवा ।
死而非時種種之變故
क्षेपमाद्वैष्णवैष्णवैष्णवा ।
或於惡夢中或劣徵兆
वैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवा ।
八大怖畏周遭為害事
यूरुं वैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवा ।
速化寂靜烏有祈加持
वैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवा ।
一切世間及出世間中
गृहिणीवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवा ।
吉祥幸福富饒圓滿等

द्वैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवा ।
增而廣之饒益無一漏
वैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवा ।
無為任運成就祈加持
वैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवा ।
精進修持增長諸善法
हृष्टुं वैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवा ।
恆修本尊而拜閱聖顏
क्षेप्त्रैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवा ।
了達空性至寶菩提心
यूरुं वैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवा ।
增而廣之如月露真容
हृष्टुं वैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवा ।
(上文為西藏成就者傑尊札給所說)

कृपावैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवा ।
剎土勝者壇城善且樂
पैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवा ।
尊聖蓮母信然麗質生
शूरुं वैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवैष्णवा ।
無邊殊勝光輝中開顯

॥**धयनशब्दसुवापद्यवद्वर्णशशुण्डय॥**

帕瑪著瑪達拉功蘇梭
聖救度母求眷念

॥**पद्मयीजेरात्केमाल्याशुभ्रिवत्॥**

達紀娜接瑪盧貢極內
息除災難盡無餘

॥**अहुदक्षुदर्जेपद्मैरात्प्रसुभाल्याप्तय॥**

吞遷利威最布瑪盧巴
一切順緣求欲果

॥**२ष्टचेद्वृद्धिशुभ्राप्तयराहदद्वृप्तय॥**

別美龍紀竹巴接都梭
不勞任運祈成就

~ 吉祥圓滿 ~

【普為施資讀誦迴向偈曰】

願以此功德 消除宿現業
增長諸福慧 圓成勝善根
所有刀兵劫 及與饑僅等
悉皆盡滅除 人各習禮讓
讀誦受持人 輾轉流通者
現眷咸安樂 先亡獲超昇
風雨常調順 人民悉康寧
法界諸含識 同證無上道

佛曆二五五八年(西曆二零一四年)

甲午年六月十九觀世音菩薩成道日

倡印人：眾佛弟子 敬印

廿一度母禮讚儀軌

贈送處：香港大圓滿心髓研究中心

香港灣仔灣仔道二三零號佳誠大廈十三樓

電話：(852) 2806 8836



綠度母咒輪

(非賣品)